



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-10.11.2022

पेट्रोलपम्प कर्मी से फुटकर लेने के बहाने धोखाधड़ी कर पैसे चोरी करने के मामले में वांछित अभियुक्तगण 1-राजन मिश्रा व 2-ऋषि कुमार थाना थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार,कब्जे से 01 अदद अवैध कट्टा व जिंदा कारतूस,कुल 1,12,000/- रु0 नगद, घटना में प्रयुक्त बाइक आदि बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी/लूटी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0328/2022 धारा 420/417/379/411 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1-रंजन मिश्रा पुत्र जुदागी मिश्रा नि0 गोरैया स्थान थाना बिहटा पटना 2-ऋषि कुमार पुत्र रंजन मिश्रा निवासी गोरैया स्थान थाना बिहटा पटना को दिनांक-09.11.2022 को समय करीब 22.45 बजे 01 अदद नाजायज कट्टा 315 बोर, 01 अदद कारतूस 315 बोर, 06 अदद सिम, दो अदद मोबाइल, घटना में प्रयुक्त वाहन पल्सर तथा कुल 112000/- रु0 नगद के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 329-2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

## घटना का विवरण-

दिनांक-09.11.2022 को वादी श्री दीपू सिंह पुत्र स्व0 लालविहारी सिंह (सेल्समैन पेट्रोल पम्प लालपुर) ने दि0-08/11/22 को सुबह 7.30 के करीब पेट्रोल पम्प पर ड्यूटी के दौरान पल्सर गाड़ी सवार दो लोगों द्वारा वादी को 2-2 हजार की नोट देकर 500-500 रुपये की नोट का छुट्टा मांगने के बहाने से धोखाधड़ी कर वादी द्वारा दिये गये 500-500 के 40 नोटों में से 20 नोट छिपा लेने और 20,000/- की जगह 10 हजार रुपये वापस देकर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर मु0अ0सं0-0328/2022 धारा 420/417/379 भा0द0वि0 पंजीकृत कर, विवेचना उ0नि0 प्रदीप कुमार यादव द्वारा की जा रही है ।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1-रंजन मिश्रा पुत्र जुदागी मिश्रा नि0 गोरैया स्थान थाना बिहटा पटना उम्र करीब 47 वर्ष ।
- 2-ऋषि कुमार पुत्र रंजन मिश्रा निवासी गोरैया स्थान थाना बिहटा पटना उम्र करीब 20 वर्ष ।

## विवरण बरामदगी-

- 1.01 अदद घटना में प्रयुक्त वाहन पल्सर मोटरसाइकिल BR 01 FV 3242 (रंजन मिश्रा से बरामद)
- 2.01 अदद नाजायज कट्टा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर (रंजन मिश्रा से बरामद)
- 3.कुल 1,12,000/- रुपया नगद (जिसमे 10,000/- रुपया दोनो के पास से चोरी का)
- 4.02 अदद मोबाइल फोन व 06 अदद सिम बरामद ।

### विवरण पूछताछ-

पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोग अपने घर से ग्रुप में निकलते हैं और जिस भी जनपद जाते हैं वहां किसी व्यक्ति को टारगेट कर उनको अपनी बातों में उलझाकर उनसे पैसा, गहना आदि ले लेते हैं। हम जिस जिले में भी जाते हैं वहां घटना कारित करने के बाद जो पैसा मिलता है उसमे से कुछ अपने पास रखते हैं और बाकी बचाकर रखे रहते हैं, जब काफी पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो अपने घर वापस चले जाते हैं। कल हम लोगों ने विमल पेट्रोल पम्प पर वहां के एक कर्मचारी को अपनी बातों में उलझाकर कर छल करके उससे दस हजार रुपये चुरा लिए थे, जिसमें से आधा-आधा पैसा हम दोनो लोगो ने आपस मे बाँट लिया था। हमने लगभग तीन महीना पहले भी वाराणसी कचहरी के पास स्थित पेट्रोल पम्प से ऐसे ही छल कर पैसे ले लिए थे।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.प्र0नि0 उपेन्द्र सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2.उ0नि0 प्रदीप कुमार यादव चौकी प्रभारी लालपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 3.उ0नि0 नीरज कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 4.उ0नि0 मुनेश यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 5.का0 राम प्रकाश थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 6.का0 प्रदीप कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 7.का0 मनीष तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 8.कां0 उपेन्द्र बहादुर सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट

वाराणसी

